

## परिशिष्ट सारणी 16 : विकास और विकासेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक

(करोड़ रुपये)

| वर्ग                                     | 2003-04<br>(लेखा) | 2004-05<br>(लेखा) | 2005-06<br>(बजट<br>अनुमान) | 2005-06<br>(संशोधित<br>अनुमान) | 2006-07<br>(बजट<br>अनुमान) |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1                                        | 2                 | 3                 | 4                          | 5                              | 6                          |
| <b>I. विकास व्यय</b>                     | <b>2,80,099</b>   | <b>2,93,538</b>   | <b>3,26,482</b>            | <b>3,62,300</b>                | <b>3,92,926</b>            |
| क) राजस्व                                | 2,04,631          | 2,16,474          | 2,40,973                   | 2,62,818                       | 2,86,765                   |
| ख) पूंजी                                 | 75,468            | 77,065            | 85,509                     | 99,481                         | 1,06,161                   |
| <b>II. विकासेतर व्यय</b>                 | <b>1,69,022</b>   | <b>1,88,298</b>   | <b>2,11,447</b>            | <b>2,03,189</b>                | <b>2,30,225</b>            |
| क) राजस्व                                | 1,66,151          | 1,83,961          | 2,05,815                   | 1,98,501                       | 2,24,775                   |
| ख) पूंजी                                 | 2,871             | 4,337             | 5,633                      | 4,688                          | 5,451                      |
| <b>III. अन्य</b>                         | <b>76,902</b>     | <b>84,467</b>     | <b>40,962</b>              | <b>42,265</b>                  | <b>44,978</b>              |
| क) राजस्व*                               | 6899              | 8,063             | 8,805                      | 10,101                         | 13,119                     |
| ख) पूंजी**                               | 70,003            | 76,404            | 32,157                     | 32,163                         | 31,859                     |
| <b>IV. कुल संवितरण<br/>(I+II+III)</b>    | <b>5,26,023</b>   | <b>5,66,303</b>   | <b>5,78,891</b>            | <b>6,07,753</b>                | <b>6,68,130</b>            |
| <b>V. IV के प्रतिशत के रूप में I</b>     | <b>53.3</b>       | <b>51.8</b>       | <b>56.4</b>                | <b>59.6</b>                    | <b>58.8</b>                |
| <b>VI. IV के प्रतिशत के रूप में II</b>   | <b>32.1</b>       | <b>33.3</b>       | <b>36.5</b>                | <b>33.4</b>                    | <b>34.5</b>                |
| <b>VII. IV के प्रतिशत के रूप में III</b> | <b>14.6</b>       | <b>14.9</b>       | <b>7.1</b>                 | <b>7.0</b>                     | <b>6.7</b>                 |

\* इसमें सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल हैं (स्थानीय निकायों की क्षतिपूर्ति और समनुदेशन)।

\*\* आंतरिक ऋण की चुकौती और केन्द्र से लिए गए ऋण की चुकौती शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होने के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हैं। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन में लेखानुदान पर आधारित थे।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।